

Regarding establishment of Kendriya Vidyalayas in Nagaur Parliamentary Constituency ? laid

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर के क्रमशः खींवसर, परबतसर, डीडवाना तथा मेड़ता में नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लम्बे समय से यह मांग की जा रही है। जिसके क्रम में जिला कलक्टर नागौर ने शासन उप-सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये थे, चूंकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भौतिक निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई जिसके क्रम में जिला कलक्टर द्वारा 03 नवम्बर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को पाई गई कमियों को दुरूस्त करवाने की बात कही थी, चूंकि 25 मार्च 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने जो कमियां पाई उनके समाधान हेतु आप पुनः क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर को निर्देशित करें कि कमियों का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। उस हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर जिला प्रशासन नागौर से समन्वय स्थापित करे तथा लगातार व जल्द से जल्द उन कमियों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी मदद भी जिला प्रशासन नागौर की करे। मेरा संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा विस्तारित है और दशकों से यहाँ के लोग अच्छे शैक्षणिक संस्थान की राह देख रहे हैं और नागौर संसदीय क्षेत्र के खींवसर, डीडवाना, परबतसर तथा नागौर जिले के ही मेड़ता में नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन भी हैं और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन नागौर नए केन्द्रीय विद्यालय हेतु आवश्यक जमीन व वांछित संसाधनों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक स्थिति, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन तथा मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए नियमों व मापदंडों में शिथिलता देते हुए उक्त स्थानों पर जल्द से जल्द नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के आदेश कराएं।